

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्रसाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 454]

नई दिल्ली, शनिवार, नवम्बर 30, 1968/अग्रहायण 9, 1890

No. 454]

NEW DELHI, SATURDAY, NOVEMBER 30, 1968/AGRAHAYANA 9, 1890

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation.

ELECTION COMMISSION OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th November, 1968

S.O. 4301.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 22 of the Representation of the People Act, 1951, (43 of 1951), the Election Commission hereby appoints the following officers:—viz.

- (1) Personal Assistant (General) to the Collector of Kanyakumari at Nagercoil,
- (2) Personal Assistant (Panchayat Development) to the Collector of Kanyakumari at Nagercoil.
- (3) Special Deputy Collector (Land Acquisition), Chittar Pattanamkal Schemes, Kuzhithurai
- (4) Special Deputy Collector (Land Acquisition), Thuckalay.
- (5) District Welfare Officer, Nagercoil.

in addition to the officer appointed by its notification No. 434/MD/68, dated the 18th October, 1968, to assist the Returning Officer for the Nagercoil Parliamentary constituency in the performance of his functions.

[No. 434/MD/68.]

By Order,

K. S. RAJAGOPALAN, Secy.

भारत निर्वाचित आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 नवम्बर, 1968

एस० ओ० 4302.—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 22 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निर्वाचन आयोग, अपनी अधिसूचना सं० 434/मद्रास/68, दिनांक 18 अक्टूबर, 1968 द्वारा नियुक्त आफिसर के अतिरिक्त निम्नलिखित आफिसरों, अर्थात्—

- (1) नागर कोइल में कन्याकुमारी के कलेक्टर का वैयक्तिक सहायक (साधारण),
- (2) नागरकोइल में कन्याकुमारी के कलेक्टर का वैयक्तिक सहायक (पंचायत विकास),
- (3) विशेष डिप्टी कलेक्टर (भूमि अर्जन) चित्तार पट्टानामकल स्कीम, कुझी-थुराई,
- (4) विशेष डिप्टी कलेक्टर (भूमि अर्जन) थुक्काले,
- (5) जिला कल्याण आफिसर, नागरकोइल,

को नागरकोइल संतदीय निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग आफिसर को उसके कृत्यों के पालन में सहायता करने के लिये एतद्द्वारा नियुक्ति करता है।

[सं० 434/मद्रास/68]

आदेश द्वारा,

के० एस० राजगोपालन, सचिव।